



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART-II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2011/पौष 17, 1932

No. 22]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2011/PAUSA 17, 1932

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2011

New Delhi, the 1st January, 2011

क्रा.आ. 23(अ).—मैं, गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली-110011 प्राचीन संस्मारक और पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 5(ii) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार व्यापक संरक्षण और विकास कार्य करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित और पूर्वी निजामुद्दीन, नई दिल्ली में हुमायूँ के मकबरा परिसर में स्थित ईसाखान के मकबरा परिसर को आगंतुकों के लिए 1 जनवरी, 2011 से तीन महीने की अवधि के लिए बंद करने का आदेश देता हूँ।

S.O. 23(E).—I, Gautam Sengupta, Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011 order for closure of Isa Khan's Tomb Complex, a monument declared as of national importance, located within Humayun's Tomb Complex in East Nizamuddin, New Delhi for a period of three months from 1st January, 2011 for the visitors to undertake extensive conservation and development in accordance with the powers delegated under rule 5(ii) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959.

[फा. सं. 30/5/2005-एम (पीटी-3)]

[F. No. 30/5/2005-M (Pt. 3)]

गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

GAUTAM SENGUPTA, Director General